



Fusion Finance Limited

(Formerly known as Fusion Micro Finance Limited)

Date: 07.12.2024

Letter No. FFL/SEC/2024-25/SE-130

The Manager	The Manager			
Listing Department	Listing Department			
National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited			
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block	Phiroze Jeejeebhoy Towers			
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai -	Dalal Street, Mumbai - 400 001			
400 051				
Scrip Code: FUSION	Scrip Code: 543652			

Sub: Newspaper Advertisement – Public Announcement for Filing of Draft Letter of Offer.

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Regulation 72 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, please find enclosed herewith the copies of the public announcement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers, on Saturday, December 07, 2024, regarding the filing of Draft Letter of Offer for issuance of equity shares on rights basis.

The aforesaid announcement is also available on the website of the Company at <u>www.fusionfin.com</u>.

You are requested to kindly take above information on your records.

Thanking you For Fusion Finance Limited (Formerly Fusion Micro Finance Limited)

Deepak Madaan Company Secretary & Chief Compliance Officer Membership No. A24811 Place: Gurugram

7

COMPANIES

BIPIN

PREET

SINGH,

FOUNDER

AND CEO,

MOBIKWIK

TO EXPAND INTO HIGHER-MARGIN TYRES SEGMENT

Ceat to acquire Michelin's Camso for around ₹2k cr

FE BUREAU Mumbai, December 6

RPG GROUP FLAGSHIP firm Ceat has signed a definitive agreement to acquire two Sri Lanka-based tyre making plants and the brand Camso.all owned by world's largest tyre maker Michelin, for ₹1,905 crore (about \$225 million). This is Mumbai-based company's first-ever acquisition.

Camso is a premium brand in off-highway construction equipment tyre and tracks segment, with strong equity and market position in the European Union and North America aftermarket, and original equipment segments, Ceat said.

Arnab Banerjee, MD & CEO, Ceat, said, "The Camso brand is an excellent fit with the growth strategy of Ceat OHT (off-highway tyres) business, thereby improving our margin profile. Access to the most premium customers, a high-quality brand and a

FRENCH CONNECTION

Michelin, Ceat The buy-out will will work together give Ceat access to a to implement global customer base measures for all including over 40 international OEMs 1,587 employees of the sold division Over the last decade,

> Ceat has been focusing on building its OHT business, which now consists of more than 900 product offerings

qualified global workforce is what excites us the most about this acquisition."

The Camso brand will be permanently assigned to Ceat across categories after a 3-year licensing period.

Ceat added that the acquisition will expand its product portfolio in the high-margin OHT and tracks segments, which includes agriculture

ARNAB **BANERJEE** MD & CEO

thereby

tyres and tracks, harvester tyres and tracks, power sports tracks and material handling tyres.

Michelin will, thus, exit from the activities related to compact line bias tyres and construction tracks. Both Michelin and Ceat will work together to implement appropriate measures for all 1,587 employees of the sold division. Nour Bouhassoun, senior

AI Express set to expand fleet size, add new routes

TKIL forays into green hydrogen

MobiKwik cuts IPO size to ₹572 cr

Don't need same level of capital we once did, says CEO FE BUREAU Bengaluru, December 6

GURUGRAM-BASED FIN-**TECH** firm MobiKwik has reduced the size of its fresh issue to ₹572 crore in its latest red herring prospectus, from the earlier ₹700 crore. The company has set a price band of ₹265 to ₹279 per share, with a minimum lot

size of 53 shares. Through this IPO, the company will likely be valued at around \$250 million, which is sharp drop from its 2021 valuof capital it once did. ation of \$924 million, as per Tracxn data.

Explaining the rationale

PUBLIC LISTING

The company will likely be valued at around \$250 million. which is sharp drop from its 2021 valuation of \$924 million

The IPO size was earlier fixed at ₹700 crore; IPO is set to open for 3 days on Dec 11

Majority of IPO proceeds will be used to fund organic growth in its financial services business and payments business, and AI/ML initiatives

the fundraise, the market was

different," Singh said on Friday.

planned the fundraise, the market was different. At that time, we were focused on growth at all costs

behind reducing the size of the "At that time, we were focused IPO, Bipin Preet Singh, founder on growth at all costs. But today, and CEO, said the company no the company has become proflonger requires the same level itable, and we don't need as much cash. We don't need to "When we initially planned dilute so much anymore".

When we initially

MobiKwikIPO is set to open for three days on December 11,

with anchor bidding on December 10, and the listing is likely to be on December 18 There is no offer-for-sale component in this issue.

In January, when the company had filed draft papers for the second time to go public, it was looking to raise ₹700 crore. The first time it tried to gopublic was in 2021, when it was looking to ₹1,900 crore but shelved the plans due to weak market conditions. Later in December that year, it raised \$14 million in a Series H round.

MobiKwik plans to use majority of the proceeds from the IPO to fund organic growth in its merchant-focused financial services business and its consumer-focused payments business and also to invest in AI/ML initiatives.

DHL, FedEx, UPS cleared in antitrust probe

ADITYA KALRA New Delhi, Deccember 6

panies are fully committed to AN ANTITRUST INVESTIGAensuring a smooth transition **TION** has concluded there was for our employees and business no price collusion between the continuity for our customers domestic units of delivery companies DHL, United Parcel Service and FedEx, according to three sources and a document seen by *Reuters*.

The Competition Commission of India (CCI) ordered an investigation in 2022 into more than a dozen delivery compa-

nies for alleged collusion on discounts and tariffs and had reviewed thousands of emails to investigate the fees companies charged for airport services, *Reuters* reported in January.

The case was filed by the Federation of Indian Publishers, which complained that global companies, along with many domestic firms, were deciding charges together and controlling customer discounts, but no details of the case have been made public in

line with the watchdog's rules. The CCI's findings said the

companies did not share "commercially sensitive information amongst themselves," according to the report seen by Reuters.

"On investigation no evidence came to the forefront," the report noted.

"The allegations levelled by the informant could not be substantiated," it added.

The investigation was completed in July and a report

shared with all parties in late October, according to one of the sources with direct knowledge. DHL, UPS and FedEx did not respond to a request for comment. The CCI also did not respond.

The findings will come as a relief to the logistics industry, which has faced scrutiny from 2015, when France levied a \$735 million fine on 20 companies, including FedEx and DHL, for secretly colluding to increase prices. _ — REUTERS

excellent fit with growth strategy of Ceat **OHT** business, improving our margin profile

vice president, Beyond Road

Business Line at Michelin, said,

"Michelin firmly believes that

Ceat is the right fit to carry on

our bias tyres and tracks for

compact construction equip-

ment business. Both our com-

The Camso brand is an CEAT

PRESS TRUST OF INDIA Kolkata, December 6

AIR INDIA EXPRESS, the budget-carrier arm of Air India, is embarking on a significant expansion by increasing its fleet size and introducing new routes, as passenger growth remains robust.

The airline, however, has deferred plans to launch direct flights between Kolkata and Dhaka, citing the ongoing political crisis in Bangladesh.

"You would recall we had announced our operational plan for Dhaka, which is a new and significant market for us. But because of the situation there, we have deferred those plans," Aloke Singh, managing director

of Air India Express, said. "As soon as the conditions are right, we will resume those plans," he said.

The airline had initially planned to launch the Dhaka



on short-haul routes within a 5.5-6 hour range, and on con-

necting metro cities with tier-II and tier-III destinations

services in September with six weekly flights.

Despite the deferment, Singh said the airline remains committed to expanding its presence in the eastern sector. He said its international

service flights to and from Kathmandu would begin with

the summer schedule, starting the end of March 2025.

Singh, speaking reporters in Kolkata, also said the airline sees strong growth potential, as daily passenger movement in India in November crossed the 500,000 mark. In order to tap the growth,

it aims to increase the fleet size to over 100 aircraft by March 2025, up from the existing 90.

> Over the next three years, the fleet size is expected to grow to about 175, Singh said.

He also highlighted that Air India Express is part of the Air India Group, which has announced plans to acquire 470 aircraft at the group level in the next few years.

Singh said the airline's network expansion would focus on short-haul routes within a 5.5-6 hour range, and on connecting metro cities with tier-II and III destinations, to tap emerging opportunities.

Mumbai, December 6 to TKIL INDUSTRIES, FOR-

FE BUREAU

and suppliers."

MERLY known as Thyssenkrupp Industries India, has forayed into the green hydrogen through an undisclosed investment in SoHHytec, the company said on Friday.

SoHHytec, a Switzerlandbased firm, uses its proprietary photosynthesis artificial (photo-electrolysis) technology to produce green hydrogen from renewable energy sources, including solar and wind, for industrial applications." It is a clear part of our strategy to expand our business operations into high-growth sectors oriented towards sustainability and emission reduction. Green hydrogen is critical for enabling the green transition of hard-toabate sectors," said Vivek Bhatia, managing director and CEO, TKILIndustries.

nent for information purposes only and is not an announcement for the offer document and does not constitute an invitation or offer acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution directly or indirectly outside India)

PUBLIC ANNOUNCEMENT



Draft Letter of Offer.



FUSION FINANCE LIMITED

(Formerly, Fusion Micro Finance Limited)

Our Company was originally incorporated as 'Ambience Fincap Private Limited' on September 5, 1994 at New Delhi. India as a private limited company under the Companies Act, 1956, and was granted a certificate of incorporation by Registrar of Companies, Delhi and Haryana at New Delhi ("RoC"). On January 9, 2003, the RBI granted a certificate of registration bearing registration no. B-14.02857 to our Company, for the registration of our Company as a non-deposit accepting non-banking inancial company under Section 45IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Subsequently, the name of our Company was changed to 'Fusion Micro Finance Private Limited' and a fresh certificate of incorporation, dated April 19, 2010 was issued by the RoC to describe the business of the Company, post which the RBI granted a certificate of registration dated May 19, 2010 reflecting the change of name. Our Company was granted an "NBFC - Microfinance Institution' status by the RBI with effect from January 28, 2014 and a modified certificate of registration bearing registration no. B-14.02857 was issued by the RBI to this effect. The name of our Company was further changed to Fusion Micro Finance Limited upon conversion to a public limited company and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on July 20, 2021, post which a fresh certificate of registration as an NBFC (not accepting public deposits) dated October 1, 2021, was issued by the RBI reflecting the change in name of our Company. Thereafter, in order to provide diverse range of financial products to our clients, the name of our Company was changed to our present name, Fusion Finance Limited and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on July 9, 2024, post which a fresh certificate of registration as an NBFC (not accepting public deposits) dated August 30, 2024, was issued by the RBI reflecting the change in name of our Company. For details in relation to the change in name of our Company and the address of our registered office, see "General Information" beginning on page 54 of the draft letter of offer dated December 5, 2024 ("DLOF")

Registered Office: H-1, C Block, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi - 110028, India. Corporate Office: Plot No. 86, Institutional Sector 32, Gurugram, Haryana - 122001, India Tel: +91- 011-46646600/ +91-124-6910500 | Contact Person: Deepak Madaan, Company Secretary and Chief Compliance Officer. E-mail: investor relations@fusionfin.com | Website: www.fusionfin.com | Corporate Identity Number: L65100DL1994PLC061287

PROMOTERS OF OUR COMPANY: DEVESH SACHDEV, CREATION INVESTMENTS FUSION, LLC, CREATION INVESTMENTS FUSION II, LLC, AND HONEY ROSE INVESTMENT LTD

FOR PRIVATE CIRCULATION TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF FUSION FINANCE LIMITED (FORMERLY, FUSION MICRO FINANCE LIMITED) (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY

ISSUE OF UP TO [●] PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES" FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹[•] PER RIGHTS EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹800.00 CRORE* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF [•] RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY [•] FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON [.] ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 222 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER DATED DECEMBER 5, 2024 ("DLOF")

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE LEAD MANAGER, MAY CONSIDER A PREFERENTIAL ISSUE OF EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 160.00 CRORE, SUBJECT TO THE NECESSARY APPROVAL FROM OUR SHAREHOLDERS IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAWS, PRIOR TO FILING OF THE LETTER OF OFFER ("PREFERENTIAL ISSUE"). THE PREFERENTIAL ISSUE, IF UNDERTAKEN WILL BE AT A PRICE AS PER THE SEBI ICDR REGULATIONS. IF THE PREFERENTIAL ISSUE IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO SUCH PREFERENTIAL ISSUE WILL BE REDUCED FROM THE ISSUE SIZE. THE PREFERENTIAL ISSUE, IF UNDERTAKEN, (I) WILL NOT EXCEED 20% OF THE ISSUE SIZE, AND (II) WILL BE UTILIZED FOR AUGMENTING OUR CAPITAL BASE AS DISCLOSED IN THE SECTION TITLED, "OBJECTS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 62 OF THE DLOF.

*Assuming full subscription in the Issue, Allotment and receipt of all Call Monies with respect to the Rights Equity Shares. Subject to finalisation of Basis of Allotmeni For further details on Payment Schedule, see "Terms of the Issue - Payment Terms" beginning on page 243 of the DLOF.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 72 (2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended ("SEBI ICDR Regulations") to inform the public that the Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of Equity Shares on a right basis and has filed the DLOF with Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") on December 6, 2024 in relation to the Issue

Pursuant to Regulation 72 (1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed with SEBI is open to public for comments, if any, for a period of at least twenty one days from date of such filing by hosting it on websites of Company at www.fusionfin.com, SEBI at www.sebi.gov.in, stock exchange where the equity shares are listed i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, BSE Limited at www.bseindia.com, and Lead Manager to the Issue i.e. IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Limited) at www.iiflcap.com. All members of the public are hereby invited to their comments on the DLOF to the SEBI and/or the Company Secretary and Chief Compliance Officer and/or the Lead Manager with respect to the disclosures made in DLOF. The Public is requested to send the copy of the comments sent to SEBI, to the Company and to the Lead Manager at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by the Company or by the Lead Manager on or before 5:00 p.m. IST on the 21" (Twenty First) day from the abovementioned date of filing the DLOF with SEBI.


Please note that the distribution of DLOF and the Issue of Equity Shares on rights basis to persons in certain jurisdiction outside India may be restricted by the legal requirements prevailing in those jurisdictions.

Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the issue including the risks involved. The securities being offered in the issue have not been reapproved by the "SEBI" nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this DLOF. Specific attention of investors is invited to the section "Risk Factors" beginning on page 20 of the DLOF before making an investment in this issue.

FROM THE FRONT PAGE

helm, Das sidestepped a query on his future. "I'm not giving you any headline and I think it is better we stick to monetary policy," he told reporters.

The stock markets stayed listless during the day, but the Sensex snapped a five-day rally to close at 81,709.12 points, down 56.74. The 10-year G-Sec bond yields, which had softened 6 bps since the beginning of December, hardened by the same extent to close at 6.74%. "While the RBI gave a liquidity boost today, especially inview of the rapidly tightening system liquidity becoming another drag on growth, it is likely waiting for lower inflation reporate," said Pranjul Bhandari, chief India economist, HSBC. Bhandari expects two repo rate cuts of 25 bps each over February and April, taking the repo rate to 6%. "However, the risk to the February rate cut call is a strong dollar or a rather slow disinflation process from here on. Either of these could push the easing cycle to later," Bhandari added. Aurodeep Nandi, economist at Nomura Holdings, Bloomberg that the "policy decision continues to prioritise inflation control over growth rescue. However, there are indications that the policy paradigm could be shifting, which reflects in additional dissent within the MPC and Das' commentary that the growth outlookwarrants monitoring." Madan Sabnavis, chief economist of Bank of Baroda, believes that the rate cut cycle should start in February because of the benign CPI projection of 4.5% for Q4. He also expects an impact on bond yields once the CRR funds get released in the market. SBI Chairman CS Setty said that the monetary policy moves



were all positive for banks, while Zarin Daruwala, CEO, India and South Asia, Standard Chartered Bank, believes that the MPC is confident that economic growth will revive in the coming prints before cutting the policy months on the back of govern-

number of these accounts.

ceilings on one- to three-year FCNR(B) deposits have been

increased from 250 bps to 400

bps of the ceiling of the

payment system providers.

THE GROWTH NUMBER is consumption," she said.

something which is not necessarily going to get badly affected this year, she said, adding that chances are high that India would continue to remain the fastest-growing major economy for the next few years. Sitharaman, however, drew attention to several challenges ahead for India, including the impact of saturation of wages on consumption, plateauing of global

demand and climate impact on agriculture. "For us, if there is a plateauing of demand globally, particularly in developed countries, it's a matter of concern," she said, adding that India not only exports commodities but

Elaborating on the Q2FY25 GDP growth slowdown, Sitharaman said the administrations, both of the state and of the Centre, gave a lot of time in getting through the electoral process. The natural governance-related public expenditure-related activities were put on the backburner. As a result, that which would have to be a catalyst for triggering better consumption, more demand for core products and so on, became slower, which was reflected in the Q2 growth numbers. On the other hand, Q4FY24 spending was very

high, which lifted the Q1FY25

GDP numbers (6.7%) despite

nomic adviser CEA V Anantha

Nageswaran highlighted certain

factors that come in the way of

higher economic growth, including global ones that are

"far from conducive", and a

"creeping informalisation" of

the workforce that has exerted a

"downward pressure" on con-


sumption. He also exhorted the

"highly profitable" Corporate

India to invest and create jobs.

On Thursday, chief eco-

the polls, she added.



processed goods and high preci-The policy also focused on sion goods. Traditional areas several other aspects, including where India had strength such financial stability, in which Das as intensive labour-producing spoke about banks being items like textiles and footwear advised to address the issues of are also facing challenges due to weak global demand. unclaimed deposits, inoperative

accounts, and frozen accounts The purchasing power of due to the pendency of KYC Indians is improving, but within update and bring down the India, there are concerns about wages saturating."We are quite In addition, to attract more seized of these factors which capital inflows, the interest rate may have a play on India's own

LG Electronics files for IPO

overnight Alternative Reference Rate (ARR). Similarly, for **THE LAST FIVE** years have seen deposits of three to five years the appliances and electronics market grow at around 7%, and maturity, the ceiling has been increased to overnight ARR plus this is expected to accelerate to 500 bps as against 350 bps at around 12% in the next five years. India's rising disposable present. Besides the CRR cut, there were a whole host of other income, increasing urbanisation, and penetration of applidecisions by the RBI. These include expanding the reach of ances in both urban and rural the forex retail platform areas are among the key factors through linkages with Bharat driving this growth potential.

LG Electronics India said it is Connect to help users transact on the platform through mobile the market leader across various apps of banks and non-bank product categories such as washing machines, refrigera-

tors, televisions, inverter ACs, and microwaves, with the offline channel contributing to around 80% of the market (excluding mobile phones) in India in value terms, as of June 2024. For the guarter ended June 2024, LG Electronics India registered total revenue from operations at ₹6,408.8 crore, with more than three-fourth of it coming from the home appliance and air solutions division (78.97%). For FY24, the total revenue was ₹21,352 crore.


For details of the share capital of the Company, see "Capital Structure" on page 59 of the DLOF. The liability of the members of our Company is limited The existing Equity Shares are listed on BSE and NSE.

Note: Capitalised terms not defined herein shall have same meaning ascribed to such terms in the DLOF.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE		
IIFL CAPITAL	LINKIntime		
IFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Limited) 24 [*] Floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013, Maharashtra, India, Tel: +91 22 4646 4728, E-mail: fusion.rights@iiflcap.com, Website: www.iiflcap.com, Investor grievance ID: ig.ib@iiflcap.com, Contact person: Nishita Mody / Dhruv Bhagwat SEBI Registration No.: INM000010940	Link Intime India Private Limited C-101, 1" Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli West Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Tel: +91 81081 14949, E-mail: fusionfinance.rights@linkintime.co.in, Website: www.linkintime.co.in Investor grievance ID: fusionfinance.rights@linkintime.co.in Contact person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR000004058		
1ace: New Delhi	FUSION FINANCE LIMITED (Formerly, Fusion Micro Finance Limited) On behalf of the Board of Directors Sd/- Deepak Madaan		
late: December 6, 2024	Company Secretary and Chief Compliance Officer		

Disclaimer: FUSION FINANCE LIMITED (Formerly, Fusion Micro Finance Limited) is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on rights basis and has filed a DLOF with SEBI and Stock Exchange on December 6, 2024. The DLOF will be available on the websites of the Company at www.fusionfin.com, SEBI at www.sebi gov.in, NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com and the website of Lead Manager to the Issue i.e. IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Limited) at www.iiflcap.com. Investors should note that investment in securities involves a high degree of risk and are requested to refer to DLOF including the section "Risk Factors" beginning page 20 of the DLOF. Potential Investors should not rely on the DLOF for making any investment decision.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Any person who purchases or renounces the Rights Entitlements or makes an application to acquire the Rights Equity Shares will be deemed to have declared, represented, warranted and agreed that such person is a non-U.S. person (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and such persons, 'U.S. Persons") outside the United States (other than persons in the United States or U.S. Persons who are both "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act) and 'qualified purchasers" (as defined in Section 2(a)(51) of the U.S. Investment Company Act of 1940, as amended)) and is eligible to subscribe and authorized to purchase or sell the Rights Entitlements or acquire Rights Equity Shares in compliance with all applicable laws and regulations prevailing in such person's jurisdiction and India, without requirement for the Company or the affiliates of the Lead Manager or its respective affiliates to make any filing or registration (other than in India).









Les projab national bank

रिकवरी डिपार्टमेंट, मंडल कार्यालय, आगरा, रघुनाथ नगर, एम.जी. रोड, आगरा–202002 E-Mail: cs8182@pnb.co.in

(अचल सम्पत्ति का कब्जा नोटिस) (अचल सम्पत्तिय हेतु धारा 8(1) के अन्तर्गत) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम–3 के साथ सहपठित धारा–13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत पंजाब नैशनल बैंक ने निम्नलिखित बकायेदार ऋणियों/गारन्टरों/बंधककर्ताओं एवं उनके कानूनी वारिशो को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतू खाते के सम्मुख अंकित तिथि को मांग नोटिस जारी किया था। ऋणियों/गारन्टरों/बंधककर्ताओं एवं उनके कानूनी वारिशो के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतदद्वारा आम जनता को एवं ऋणियों / गारन्टरों / बंधककर्ताओं एवं उनके कानुनी वारिशो को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का उपरोक्त अधिनियम की धारा–13 (4) एवं नियमों के उपनियम–8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा आधिपत्य उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया गया है। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के संबन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतदद्वारा ऋणियों / गारन्टरों / बंधककर्ताओं एवं उनके कानूनी वारिशो को विशेषतः और जनसाधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि चूंकि निम्न सम्पत्ति का सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया गया है, अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा⁄व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा⁄व्यवहार पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है, के अध्याधीन होगा।

ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता का ध्यान, एक्ट के सेक्शन—13 के सब सेक्शन (8) की ओर आकर्षित किया

खातेदारों एवं		1 100 10					
गारन्टरों / शाखा का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	नोटिस	कब्जा नोटिस दिनांक	के अनुसार	2	DL/GRN/ALPH/A00000004 श्री सुनील विजय पाल और श्रीमती	
ऋणीः श्री राम कुमार पुत्र श्री हरी सिंह गौतम, श्रीमती सुनीता गौतम पत्नी श्री राम कुमार	साम्यिक बंधक रिहायशी प्लॉट नं० 75—बी, खसरा नं० 291, स्थित शांति एन्क्लेव, मौजा—चौहटना, बिचपुरी, तहसील एवं जिला—आगरा—283105, (उ0प्र0), एरियाः 83.88 वर्ग मी०,	25.09.2024	12.2024	रू0 15,39,593.22 दि. 28.08.2024		विजय पाल, दोनों: एल-90 पार्ट-2, सीत पीछे जनकुरी दिल्लो-110059	
(सह—ऋणी एवं बंधककर्ता), श्री राज कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द (गारण्टर) शाखाः शाहगंज, आगरा	(सम्पत्ति श्रीमती सुनीता गौतम पत्नी श्री राम कुमार के नाम), चौहद्दी–पूर्व– रास्ता 25 फीट चौड़ा, पश्चिम – अन्य सम्पत्ति, उत्तर– सम्पत्ति नं० 74, दक्षिण – सम्पत्ति नं० 75–ए	25.09	२ तक + ब्याज ४ एवं अन्य खर्चे 29.08.2024 से		3	आवेदन नं. DL/DEL/DLHI/A000001940 श्री अश्वनी और श्रीमती मपता पांडे, मकान नं. ई-4/28, गली नं. 8, पुरला सोनिया विहार, दिल्ली-110094	
	साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति⁄प्लॉट नं0 31 का भाग, खसरा नं0 2158, स्थित विजय कुंज, निकट चन्द्र नगर,	9.2024 2.2024		₹0 26,20,456.70			
सिंह एवं श्रीमती नीतू यादव पत्नी श्री संतोष कुमार (सह—ऋणी) शाखाः दयालबाग, आगरा	कालिंदी विहार, मौजा—नराइच, तहसील एवं जिला—आगरा— 282006, (उ0प्र0), एरियाः 72.46 वर्ग मी0, (एरियाः 86.66 वर्ग गज), (सम्पत्ति श्री संतोष कुमार पुत्र श्री वेद राम सिंह के नाम), चौहद्दी—पूर्व — रास्ता 30 फीट चौड़ा, पश्चिम— धर्मेन्द्र सिंह का प्लॉट, उत्तर— रास्ता 15 फीट चौड़ा, दक्षिण —रास्ता 10 फीट चौडा।	25.09.2024	03.12.2	दि. 29.08.2024 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 30.08.2024 से	4	आवेदन नं. DL/NCU/GHAU/A00000038 श्री असगर और श्रीमती महलवी, दोनों: नंबर 333 का मकान नंधर 211, अस फरख नगर गात्रियाबाद- 201003	
(1) श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र	साम्यिक बंधक सम्पत्ति यूनिट नं० २१, अपर ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नं० २५/२/४, संजय पैलेस, आगरा–२८२००२, एरियाः १५००० वर्ग फीट, सम्पत्ति श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता के नाम, चौहद्दी–पूर्व– दुकान नं० १९/५, पश्चिम– दुकान नं०	25.09.2024	.12.2024	रू० 14,32,491.36 दि. 31.08.2024 तक + ब्याज	5	आवेदन नं. DL/NCU/GHAU/A00000208 श्री प्रवीप कुमार और सुश्री सुमन, बोने गोविंदपुरी हनुमानपुरी मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 20120	
कालिका प्रसाद गुप्ता, (3) श्रीमती स्वेता गुप्ता पत्नी श्री मनोज	23/5, उत्तर — कॉरीडोर/10, दक्षिण — खुला आकाश/10	25	25	एवं अन्य खर्चे		आवेदन नं. DL/MNR/KCPR/A000000101 DL/MNR/KCPR/A00000016 श्री राजीव जुमार और श्रीमती परिषित बीनों: वी-203 राज नगर रेजीडेंसी सा	
कुमार गुप्ता। शाखाः राजामंडी, आगरा							
ॠणी⁄बंधककर्ताः श्री किशन मुरारी पुत्र श्री राम बाबू, श्रीमती	साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति स्थित मकान नं0 21/62 (प्रथम तल), नगर निगम नं0 21/62/5, फ्री गंज, वार्ड	024	024	रू0 23,64,143.50	7	एक्सटेंशन गानियाबाद 201001 आवेदन नं.	
पुरारा पुत्र आ राग पांचू, आगरत बेबी देवी पत्नी श्री किशन मुरारी (सह—ऋणी) एवं श्री गुरू देव गौतम पत्नी श्री सत्य प्रकाश गौतम (गारण्टर) शाखाः बल्केश्वर, आगरा	हरी पर्वत, तहसील एवं जिला—आगरा, (उ०प्र०), एरियाः 81.50 वर्ग मी०, (सम्पत्ति श्री किशन मुरारी पुत्र श्री राम बाबू के नाम), चौहद्दी—पूर्व — रोड़ 40 फीट चौड़ा, पश्चिम — अन्य की सम्पत्ति, उत्तर — निकास एवं सीढ़ी, दक्षिण —अन्य की सम्पत्ति।	25.09.2024	03.12.2024	23,64,143.50 दि. 31.07.2024 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.08.2024 से		अविषय ग. DL/NCU/NOIU/A000001322 CO/CPC/CPOF/A00000247 श्रीमती इरवती देवी पुत्री रामे और श्री कुलार, दोनों: गांव-डेरिन खेडा चौ कुलेसरा मीतम कुळ नगर, डेटर नोएडा प्रदेश भारत - 201306	
दिनांकः—07.12.2024	स्थानः आगरा		Я	धिकृत अधिकारी	दि-	। नांकः 06-12-2024, स्थानः गाजिग	

18 जनसता 7 दिसंबर, 2024 हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, डितीय तत, जन्म सलई, सैवपेट, चेन्नई-600015, ईंगेतः auction@hindujahousingfinance.com HINDUJA द्वितीय तल, प्लॉट 2, एचसीएमआर कॉम्प्लेक्स, मेन वजीराबाद रोड, गोकलपुर, दिल्ली-110094 HOUSING FINANCE एएलएम – अलग मोहम जमी, 8800898999, आरआरएम – अमित गीलिक, өड४७०४४३३, सीएलएम – गीरव वाटीर – 9999243349, सीआरएम – आवाज-9990623685 सकितिक कब्जा सूचना जबकि अधोडरलाक्षरी ने वित्तीय परिश्वतियों के प्रतिभूतिकरण एवं युनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियन के प्रवर्तन के अधीन **डिंदुजा डाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड** का प्राविकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का न. 3) के नियम के साथ पठित पारा 13(12) के अधीन प्रवत शक्तियों के अंतर्गर म्नलिखित कर्जदारों (तद्योपरान्त कर्जदार एवं मारटरों को संयुक्त रूप सें "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नाकित दिशाकों की मांग नीटिस आरी किया था जिस ल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सुचना की तिथि से 60 दिनों के अंबर मुंगतान करने को कहा मया था। कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो मेंगे हैं, इसलिए एलद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अभोहस्ताक्षरी में इसने नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, जक्त, अभिनियम की बादा 13(4), जक्त नियमों के नियम 8 के साम पटित के अभीन जन्हें प्रदात शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत ल्पति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है। विशेष रूप से कर्जवार और गारटर तथा जनसाधारण को एतंदुद्वारा उक्ता संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड** के प्रभार वास्ते निम्नलियित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविधात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मित खत्ते, लागल, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। रधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गन सुरक्षित परिशंपत्तियों के मुक्त करने हेन् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्शित किय जाता है । मांग सूचना की तारीख कर्जदार/गारन्टर के नाम बकाया राशि अचल सम्पतियों का विवरण कब्जा सूचना की तिथि एवं पता फ्लैट नं. एसएफ-3 (आरएचएस रियर साइड) द्वितीय तल पर, आवेदन नं. 17-08-2024 ₹ 12,41,816/-छत के अधिकार के साथ क्षेत्रफल 650 वर्ग फीट प्लॉट नं DL/OKH/OKHL/A00000643 प्लस ब्याज 05-12-2024 एमएम-70 पर निर्मित, क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर, गांव श्री रूपेश कुमार और श्रीमती मुस्कान झा, दोनों इत्यादि सांकेतिक सादुलाबाद कॉलोनी जिसे बस्थ अंकुर विहार के नाम से जान ए 141 एस/एफ केएव गें, 341/342 गली गे जाता है, परागना और तहसील लोनों और जिला पाजियाबाद में 2 पार्ट 2पुस्ता 1 सोनिया विहार विल्ली स्वित, चौहदी: पूरव में - प्लॉट नं. एमएम 70ए, पश्चिम में 110094 फीट नं. एमएम-69ए, उत्तर में - फ्लीट नं. वी11∕20 और वी11/21, दक्षिण में - संद्रक 18 मीटर चौडी रिडायशी निर्मित फ्लैट नं. एसएफ-02, क्षेत्रफल 390 वर्ग फीट, ₹ 11,34,512/-06-03-2024 144 प्लस खाज प्लॉट नं. 15-16 पर निर्मित, खसरा नं. 185 में से, खुशाल 05-12-2024 कविता इत्यादि विहार के क्षेत्र में कॉलोनी गांव सादुल्लाबाद, लोनी, माजियाबाद, सांकेतिक लापुरी के **उत्तर प्रदेश में स्थित,** चीहटी: पूरव में - रोड 15 फीट, पश्चिम में - अन्य का प्लॉट, उत्तर में - अन्य का प्लॉट, दक्षिण में -अन्य का फॉट Can Fin Homes Ltd फ्लैट सं. एसएफ-1, (सामने दाएँ तरफ फ्लैट) दूसरी मंजिल ₹ 17,46,878/-27-06-2024 COTTON CANADA DANKI COLUMNICA MUNICIPALITY 4ñ. प्लस ब्याज पर बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 550 वर्गफुट, प्लॉट 05-12-2024 हे, दोनों: संख्या- ए-120 पर निर्मित, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, खसरा सं इत्यादि सांकेतिक 392 और 393 का हिस्सा, गांव सायुल्लाबाद कॉलोनी जिसे 141/2 एस.एल.एफ. वेद विहार के नाम से जाना जाता है ब्लॉक-ए लोनी गाजियाबाद में स्थित, चौड़दीः पूरव में - प्लॉट न र-121, पश्चिम में- प्लॉट से. ए-119, उत्तर में - सड़क 9 मीटर चौडी, वशिण में – आंट सं. ए-133 आवासीय 2 मंगिला इमारत, कवर्ड एरिया 70 वर्ग गज, अर्थात 18-06-2024 ₹ 6,77,913/-387 प्लस ब्याज 58.52 वर्ग मी., खसरा नंबर 333 में से, गॉव असलतपुर 02-12-2024 इत्यादि बें: खसर परगना लोनी, गाजियाबाद में स्थित सांकेतिक सालतपुर खसरा नं. 488 मोहल्ला इंद्रपुरी नवाब विद्वार गांव सीकरी खुर्य ₹ 8,88,274/-16-08-2024 083 प्लस ब्याज परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर 04-12-2024 नोः 121 इत्यादि प्रवेश, भारत - 201204 सांकेतिक मेट्रो 204 45,66,129/-पलैट नं. ए 308 खेटिनम 321 राज नगर एक्सटेंजन, ग्रामीण 16-08-2024 01 & प्लस ब्याज गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 201001 30-11-2024 169 इत्यादि त कुमारी सांकेतिक राज नगर चौहददीः संपत्ति क्षेत्रफल 216 वर्ग गज, खसरा सं. 268 का डिस्सा प्राम ₹ 17,87,326/-17-08-2024 22, दिनांक चौगानपुर तहसील दादरी और जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर ज्ञात भारः शून्य 05-12-2024 47.8 17.08.2024 प्रदेश में स्थित, इसके बाद "उक्त संपत्ति" के रूप में संदर्भित औं सतेंद्र सांकेतिक तक किया जाता है, चोहदी: पुरव में - रास्ता 20 फीट चोड़ा, पश्चिम चौगानपुर प्लस ब्याज में - ऋषि का मकान, उत्तर में - अन्य, दक्षिण में - जन्य इत्यादि डा, उत्तर तिथि स्थान जेयाबाद ाधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

PUBLIC NOTICE

ENTIRE FREEHOLD PROPERTY BEARING NO. 4/5, SHANTI NIKETAN, NEW DELHI ADMEASURING 800 SQ. YDS.

"Be it known to all that my client has agreed to Purchase Entire Freehold Property bearing No. 4/5, Shanti Niketan, New Delhi admeasuring 800 sq. yds. from Ms. Simrat Swatantra Singh W/o Col. Jeetendra Dalvi who has represented herself to be sole, absolute and exclusive owner of the said property and has further represented that the said property is free from all sorts of encumbrances (registered or un-registered) including but not limited to prior sale, gift, mortgage, charge, lien, claims, disputes etc. Any other person(s) having any claim against, into or upon the said property or any part thereof by virtue of sale, inheritance, agreement, contract, mortgage, lien, charge etc., or otherwise howsoever and of whatsoever nature is hereby required to notify the same in writing alongwith supporting documentary evidence to the undersigned within 7 days, from the date of publication of this notice, failing which my client shall conclude the sale and any claim and/or objection if any shall be considered as waived and abandoned and shall not be binding upon my client.

> RAJ SINGH GEHLOT (ADVOCATE) L-4, Green Park Extension, New Delhi-110016. Tel. 26191394, 26194021

केन फिन होम्स लिमिटेड CIN: L85110KA1987PLC008699

केनरा बैंक के ऊपर, प्रथम तल, प्लॉट नं सी-3, सैक्टर-1, नोएडा पिनकोड–201301 ई–मेल : noida@canfinhomes.com, फोनः 0120-2970164 / 65 / 67 मोबाइलः 7625079126

[नियम 9(1) के परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई—नीलामी सूचना एतदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभुत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा **केन फिंन होम्स लिमिटेड, नोएडा शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, रितेश कुमार गुप्ता पुत्र नरेंद्र कुमार गुप्ता, प्रेरणाँ शर्मा पत्नी रितेश कुमार गुप्ता (उधारकर्ता) और श्री मोहित गुप्ता (गारंटर), की तरफ केन फिन होम्स लिमिटेड की 05.12.2024 तक बकाया राशि रु. 25,37,417/– (रुपये पचीस लाख सैंतीस हजार चार सौ सत्तरह मात्र) उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों इत्यादि की वसुली के लिए दिनांक 27.12.2024 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य रु. 13,00,000/- (रुपए तेरह लाख मात्र) तथा धरोहर राशि जमा रु. 1,30,000/- (रुपए एक लाख तीस हजार मात्र) होगी। संपत्ति का विवरण

छत के अधिकार सहित सम्पूर्ण द्वित्तीय तल, मकान नं.— डी—14, पूराना नगर निगम नं. 74, 51 52 और नया नं. 53, जगदीश नगर (मुकुंद नगर), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। पूर्व— 30 फीट चौडी सडक, पश्चिम— बाबुराम शर्मा का घर उत्तर— राकेश भटनागर का घर, दक्षिण— कौशल देव मंदिर

बिक्री के विस्तुत नियम एवं शर्तें **केन फिन होम्स लिमिटेड** की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx) में उपलब्ध कराई गई हैं। ई—नीलामी में भाग लेने के लिए लिंक : https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें।

	12
थेः 06.12.2024	हस्ता. / —,
नः नोएडा	हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड



ए) संपत्ति सभी मौजूदा और आगे के भारों के साथ बेची जा रही है, चाहे वे बैंक को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तरह से किसी तीसरे पक्ष के approved by the "SEBI" nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this DLOF. Specific attention of investors is invited to the section "Risk Factors" दावों/अधिकारों/बकायों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। खरीदार को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए। बोली लगाने वालों को सलाह दी beginning on page 20 of the DLOF before making an investment in this issue. जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले संबंधित अधिकारियों से अपनी संतुष्टि के लिए सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित अन्य विवरणों के शीर्षक और सत्यता के बारे में खुद को संतुष्ट कर For details of the share capital of the Company, see "Capital Structure" on page 59 of the DLOF. The liability of the members of our Company is limited. The existing Equity Shares are listed on BSE and NSE. लें और अन्य बकाया/देयता/भारों का भी पता लगा लें। खरीदार बाद में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाताओं के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। Note: Capitalised terms not defined herein shall have same meaning ascribed to such terms in the DLOF. बी) किसी भी राशि के भगतान में चक होने की स्थिति में, या यदि खरीदार/बोलीदाता की ओर से चक के कारण बिक्री उक्त समय सीमा के भीतर पूरी नहीं होती है, तो बैंक खरीदार/बोलीदाता LEAD MANAGER TO THE ISSUE REGISTRAR TO THE ISSUE द्वारा तब तक भुगतान की गई सभी धनराशि जब्त करने और सुरक्षित परिसंपत्ति को अपने पूर्ण विवेक पर फिर से बिक्री के लिए रखने का हकदार होगा। इसके अलावा, इस तरह की पुनर्बिक्री के कारण बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, खर्चों को चूककर्ता खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। **LINK**Intime IIFL CAPITAL सी) नीलामी/बोली केवल https://ebkray.in/ (वेबसाइट का उल्लेख करें) वेबसाइट के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें। Link Intime India Private Limited IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Limited) 24" Floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), C-101, 1" Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli West डी) प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति लेकर ईएमडी जमा करने की तिथि अर्थात 06.01.2025 को या उससे पहले संपत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है। Mumbai - 400 013, Maharashtra, India, Mumbai - 400 083, Maharashtra, India ई) संपत्ति आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर बेची जाएगी और भाग लेने वाले बोलीदाता नीलामी प्रक्रिया के दौरान अपनी पेशकश में और सुधार कर सकते हैं। Tel: +91 22 4646 4728, E-mail: fusion.rights@iffcap.com, Tel: +91 81081 14949, E-mail: fusionfinance.rights@linkintime.co.in, एफ) आरक्षित मुल्य की 10% ईएमडी राशि संबंधित केनरा बैंक शाखाओं के प्राधिकत अधिकारी के पक्ष में डिमांड डाफ्ट के माध्यम से जमा की जानी है, या आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड टांसफर Website: www.iiflcap.com, Investor grievance ID: ig.ib@iiflcap.com, Website: www.linkintime.co.in के माध्यम से संबंधित केनरा बैंक शाखाओं के खाते में 06.01.2025 को शाम 05.00 बजे तक जमा की जानी चाहिए। Contact person: Nishita Mody / Dhruv Bhagwat Investor grievance ID: fusionfinance.rights@linkintime.co.in SEBI Registration No.: INM000010940 Contact person: Shanti Gopalkrishnan (i) ईएमडी राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर। यदि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, तो यूटीआर नंबर के साथ इसकी पावती रसीद। SEBI Registration No.: INR000004058 (ii) पैन कार्ड, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी। हालांकि, सफल बोलीदाता को बोली राशि के 25% की शेष राशि का भुगतान करते समय इन दस्तावेजों को मूल रूप में बैंक में प्रस्तुत करना होगा। FUSION FINANCE LIMITED iii) बोलीदाता का नाम। संपर्क नंबर। पता, ईमेल आईडी। (Formerly, Fusion Micro Finance Limited) On behalf of the Board of Directors iv) ईएमडी की ऑनलाइन वापसी के लिए बोलीदाता का खाता विवरण। जी) असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी उन्हें वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। Place: New Delhi Deepak Madaan एच) नीलामी ऊपर बताए गए आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाताओं को अपनी पेशकश को संपत्ति सं. 1 से 3 के लिए 50,000/- रुपये और संपत्ति सं. 4, 4 के लिए 25,000/- रुपये के Date: December 6, 2024 Company Secretary and Chief Compliance Officer गुणकों में सुधारना होगा। 'ऑनलाइन' नीलामी बंद होने पर सबसे अधिक बोली (आरक्षित मूल्य से अधिक) प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सुरक्षित Disclaimer: FUSION FINANCE LIMITED (Formerly, Fusion Micro Finance Limited) is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt लेनदार द्वारा इसकी पृष्टि के अधीन, सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री की पृष्टि की जाएगी। of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on rights basis and has filed a DLOF with SEBI and Stock Exchange on आई) सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित होने के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) जमा करना होगा और सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि December 6, 2024. The DLOF will be available on the websites of the Company at www.fusionfin.com. SEBI at www.sebi.gov.in, NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com and the website of Lead Manager to the Issue i.e. IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Limited) at www.iiflcap.com. की तारीख से 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता बिक्री मुल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा की गई जमा राशि को बिना किसी Investors should note that investment in securities involves a high degree of risk and are requested to refer to DLOF including the section "Risk Factors" beginning page नोटिस के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को तरंत फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 20 of the DLOF. Potential Investors should not rely on the DLOF for making any investment decision. जे) 50 लाख रुपये या उससे अधिक की बिक्री आय के लिए, सफल बोलीदाता को बिक्री आय पर 1% की दर से टीडीएस काटना होगा और टीडीएस प्रमाण पत्र की मल रसीद बैंक को प्रस्तत This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Any person who purchases or renounces the Rights Entitlements or makes an application to acquire the Rights Equity Shares will be deemed to have declared, represented, warranted and agreed that such person is a non-करनी होगी। के) सभी परिवहन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी/जीएसटी पंजीकरण शुल्क आदि जो भी लागू हो, सफल बोलीदाता द्वारा ही वहन किए जाएंगे। U.S. person (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and such persons, "U.S. Persons") outside the United एल) प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। States (other than persons in the United States or U.S. Persons who are both "gualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act) and एम) यदि ऐसे बोलीदाता हैं जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, लेकिन वे ई–नीलामी में भाग लेने में रुचि रखते हैं, तो वे सुविधा केंद्र के रूप में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते "qualified purchasers" (as defined in Section 2(a)(51) of the U.S. Investment Company Act of 1940, as amended)) and is eligible to subscribe and authorized to purchase or sell the Rights Entitlements or acquire Rights Equity Shares in compliance with all applicable laws and regulations prevailing in such person's jurisdiction and India हैं। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर 74969-73035, ई-मेलः recrogrgon@canarabank.com without requirement for the Company or the affiliates of the Lead Manager or its respective affiliates to make any filing or registration (other than in India). सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सांविधिक 30 दिनों की बिक्री सूचना प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक स्थानः गुड़गांव दिनांक: 06.12.2024 www.readwhere.co